



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 18—जून 24, 2005 (ज्येष्ठ 28, 1927)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 18—JUNE 24, 2005 (JYAISTHA 28, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 2

### [PART III—SECTION 2]

[पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस]

[Notifications and Notices Issued by the Patent Office relating to Designs]

#### THE PATENT OFFICE

##### DESIGNS

Kolkata, the 18th June 2005

#### ADDRESSES OF THE OFFICES OF THE PATENT OFFICE

The Patent Office has its Head Office at Kolkata and other Offices at Mumbai, Delhi and Chennai as shown below :—

1. Patent Office Mumbai,  
Todi Estates, IIIrd Floor,  
Sun Mill Compound,  
Lower Parel (West),  
Mumbai-400 013. INDIA.  
Phone Nos. (022) 2492 4058, 2496 1370,  
2492 3684, 2490 3852.  
Fax Nos. (022) 2495 0622, (022) 2490 3852.  
E-mail: patmum@vsnl.net
2. Patent Office Delhi,  
W-5, West Patel Nagar,  
New Delhi-110 008. INDIA.  
Phone Nos. (011) 2587 1255, 2587 1256,  
2587 1257, 2587 1258, 2587 7245.  
Fax Nos. (011) 2587 6209, 2587 2532.  
E-mail: delhipatent@rediffmail.com  
delhipatent@vsnl.com

3. Patent Office Chennai,  
Guna Complex, 6th Floor, Annex-II,  
443, Annasalai, Teynampet,  
Chennai-600 018. INDIA.  
Phone Nos. (044) 2431 4324/4325/4326, 2431 4753  
Fax Nos. (044) 2431 4750, 2431 4751.  
E-mail: chpatent@tn.nic.in,  
patentchennai@vsnl.net.

4. Patent Office Kolkata (Head Office),  
Nizam Palace, 2nd M.S.O. Building, 5th,  
6th & 7th Floor, 234/4, Acharya Jagadish  
Bose Road, Kolkata-700 020, INDIA.  
Phone Nos. (033) 2247 4401, 2247 4402  
2247 4403, 2281 3419/3420/3423  
Fax No. (033) 2247 3851/2240 1353.  
E-mail: patentin@vsnl.com  
patindia@giasc 101.vsnl.net.in  
Website: http://www.ipindia.nic.in

All applications, notices or other documents or any fees required by the Designs Act, 2000 and the Design Rules, 2001 will be received as per Rule 3 of the Design Rules, 2001 at the office of The Patent Office.

Fees: The fees may either be paid in cash or may be sent by Bank Draft or Cheques payable to the Controller of Patents or Controller of Designs drawn on a Scheduled Bank.

## पेटेंट कार्यालय

## डिजाइन

कोलकाता, दिनांक 18 जून 2005

पेटेंट कार्यालय के सभी कार्यालयों के पते

पेटेंट कार्यालय का प्रधान कार्यालय कलकत्ते में तथा अन्य कार्यालय मुम्बई, दिल्ली एवं चेन्नई में अवस्थित हैं जो निम्नलिखित हैं:—

1. पेटेंट कार्यालय मुम्बई,  
टोडी इस्टेट, तीसरा तल,  
सन मिल कम्पाउंड,  
लोअर परेल (वेस्ट),  
मुम्बई - 400 013, भारत।  
फोन : (022) 2492 4058, 2496 1370,  
2492 3684, 2490 3852.  
फैक्स : (022) 2495 0622, (022) 2490 3852  
ई. मेल : [patnum@vsnl.net](mailto:patnum@vsnl.net)
2. पेटेंट कार्यालय दिल्ली,  
डब्ल्यू-5, वेस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली - 110 008, भारत।  
फोन : (011) 2587 1255, 2587 1256,  
2587 1257, 2587 1258, 2587 7245.  
फैक्स : (011) 2587 6209, 2587 2532.  
ई. मेल : [delhipatent@rediffmail.com](mailto:delhipatent@rediffmail.com)  
[delhipatent@vsnl.com](mailto:delhipatent@vsnl.com)

3. पेटेंट कार्यालय चेन्नई,  
गुना कम्प्लेक्स,  
छठा तल, एनेक्स-II,  
443, अन्नासलाई, तेनामपेट,  
चेन्नई - 600 018, भारत।  
फोन : (044) 2431 4324/4325/4326, 2431 4753.  
फैक्स : (044) 2431 4750, 2431 4751.  
ई. मेल : [chpatent@tn.nic.in](mailto:chpatent@tn.nic.in),  
[patentchennai@vsnl.net](mailto:patentchennai@vsnl.net)

4. पेटेंट कार्यालय कोलकाता (प्रधान कार्यालय),  
निजाम पैलेस, द्वितीय बहुतलीय,  
कार्यालय भवन, 5वां, 6वां व 7वां तल,  
234/4, आचार्य जगदीश बोस मार्ग,  
कोलकाता - 700 020, भारत।  
फोन : (033) 2247 4401, 2247 4402,  
2247 4403, 2281 3419/3420/3423.  
फैक्स : (033) 2247 3851/2240 1353.  
ई. मेल : [patentin@vsnl.com](mailto:patentin@vsnl.com)  
[patindia@giasec101.vsnl.net.in](mailto:patindia@giasec101.vsnl.net.in)  
वेबसाइट: <http://www.ipindia.nic.in>

डिजाइन अधिनियम, 2000 तथा डिजाइन नियम, 2001 द्वारा वांछित सभी आवेदन, सूचनाएं या अन्य दस्तावेज़ या कोई शुल्क डिजाइन नियम, 2001 के नियम 3 के अनुसार पेटेंट कार्यालय में स्वीकृत होंगे।

शुल्क : शुल्क या तो नकद रूप में या “Controller of Patents” अथवा “Controller of Designs” के नाम में देय बैंक ड्राफ्ट या चैक के द्वारा भेजी जा सकती है जो उसी स्थान के किसी अनुसूचित बैंक में प्रदत्त हो जहां उपयुक्त कार्यालय स्थित है।





## CORRIGENDUM




In the Gazette of India, Part-III, Section-2 dated the 11th September, 2004 please read the name of the applicant as "MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS, LLC" as allowed under Section 20(1) of the Patent Act, instead of "The Mead Corporation" in respect of application for Patent No. 194040 (907/C/96).

**REGISTRATION OF DESIGNS**

The following designs have been registered. They are open for public inspection from the date of registration. (Colour combination if any, is not shown in the representation)

The dates shown in the following each entry is the date of registration.

Class	11-02	No.195010. M/S. STONE MASTER AT 8, LODHA ESTATE BEHIND MITTAL INDUSTRIAL ESTATE NO. 5, MAROL NAKA, ANDHERI -KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI-400059. "TEMPLE (PORTABLE)" 24 MARCH 2004	
Class	11-02	No.195012. M/S. STONE MASTER AT 8, LODHA ESTATE BEHIND MITTAL INDUSTRIAL ESTATE NO. 5, MAROL NAKA, ANDHERI -KURLA ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI-400059. "MARBLE MANDIR" 24 MARCH 2004	
Class	06-11	No.197246. S.N. KAPOOR EXPORTS, KHWASJI KA BAGH, AMER ROAD, JAIPUR - 302 002, RAJASTHAN, (INDIA). "CARPET" 1 <sup>ST</sup> OCTOBER 2004	
Class	13-03	No.195471 M/S. ABB LIMITED, AN INDIAN COMPANY, 2 <sup>ND</sup> FLOOR, EAST WING, KHANJIA BHAVAN, 49, RACE COURSE ROAD, BANGALORE:-560 001, KARNATAKA, INDIA. "BELL PUSH WITH LED" 14 MAY 2004	

Class	13-03	No.195492 M/S. ABB LIMITED, AN INDIAN COMPANY, 2 <sup>ND</sup> FLOOR, EAST WING, KHANJIA BHAVAN, 49, RACE COURSE ROAD, BANGALORE:-560 001, KARNATAKA, INDIA. "MOUNTING PLATE" 14 MAY 2004	
Class	02-04	No.196683. TRELA FOOTWEAR EXPORTS PVT. LTD., AT D-38, SITE-C, INDUSTRIAL AREA, SIKANDRA, AGRA:-282 007, U.P.,(INDIA). "SOLE FOR FOOTWEAR" 13 AUGUST 2004	
Class	15-01	No.193573. GREAVES LIMITED, AT INDUSTRY MANOR, APPASAHEB MARATHE MARG, PRABHADEVI, MUMBAI-400025, STATE OF MAHARASHTRA, INDIA. "AIR COOLED TIMER ENGINE" 24 OCTOBER 2003	

S. CHANDRASEKARAN  
Controller General of Patents,  
Designs & Trade Marks